



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 30 जनवरी, 2021

माघ 10, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या 13/2021/24 पी/छः-पु-6-2021-300(75)-2016

लखनऊ, 30 जनवरी, 2021

### अधिसूचना

प0आ0-258

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 1515 पी/छः-पु-6-2016-300(75)-2016, दिनांक 30 नवम्बर, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

### संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

(1) पुलिस थाना सदर कोतवाली से संबंधित क्रम संख्या-1 में अनुसूची के स्तम्भ-3 और 4 की निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी, अर्थात् :-

पुलिस थाना गजट संख्या	पुलिस थाना का नाम	ग्राम का नाम		तहसील का नाम
1	2	3		4
1	कोतवाली सदर	25	सिधुपुर	सदर
		27	राजेपुर वाजीदपुर	सदर
		28	टिकरगढ़ी	सदर
		29	गजौली	सदर
		30	झंझरी	सदर

1	2	3		4
		31	चाँदपुर	सदर
		46	रामबक्श खेड़ा	सदर
		96	लोधनहार	सदर
		97	आवास विकास (एबीसी ब्लॉक)	सदर
		99	शिवनगर	सदर
		100	पीताम्बर नगर भाग-2	सदर
		101	इब्राहिम बाग	सदर

(2) पुलिस थाना अचलगंज से संबंधित क्रम संख्या-4 में, अनुसूची के स्तम्भ 3 और 4 की निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	पुलिस थाना का नाम	ग्राम का नाम		तहसील का नाम
1	2	3		4
4	अचलगंज	43	तारगांव	सदर
		44	ओराहर	सदर
		45	दुआ	सदर
		46	रायपुर बुजुर्ग	सदर
		47	नन्दौली	सदर

(3) पुलिस थाना फतेहपुर चौरासी से संबंधित क्रम संख्या-12 में अनुसूची के स्तम्भ 3 और 4 की निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	पुलिस थाना का नाम	ग्राम का नाम		तहसील का नाम
1	2	3		4
12	फतेहपुर चौरासी	9	निगोही	सफीपुर

(4) पुलिस थाना बांगरमऊ से संबंधित क्रम संख्या-13 में अनुसूची के स्तम्भ 3 और 4 की निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	पुलिस थाना का नाम	ग्राम का नाम		तहसील का नाम
1	2	3		4
13	बांगरमऊ	29	शादीपुर	बांगरमऊ
		30	तमोरिया बुजुर्ग	बांगरमऊ
		31	गुलजारपुर	बांगरमऊ
		32	अरगूपुर	बांगरमऊ
		41	तमोरिया खुर्द	बांगरमऊ
		65	दसगवां	बांगरमऊ
		66	हयातनगर	बांगरमऊ
		68	जहांगीराबाद	बांगरमऊ
		69	चहोलिया	बांगरमऊ
		71	ब्यौली इस्लामाबाद	बांगरमऊ
		72	हरईपुर	बांगरमऊ
		73	जटपुर बेल्थरा	बांगरमऊ
		74	भिक्खनपुर गोपालपुर	बांगरमऊ
		75	महोलिया	बांगरमऊ
		76	रोशनाबाद	बांगरमऊ
		77	अटवा	बांगरमऊ

1	2	3		4
		78	अवैक	बांगरमऊ
		79	मटुकरि	बांगरमऊ
		80	रानीपुर ग्रन्ट	बांगरमऊ
		81	भटौली	बांगरमऊ
		82	खाम्भामऊ	बांगरमऊ
		83	कैथौली	बांगरमऊ
		84	बेहटा मुजावर	बांगरमऊ
		85	अमीरपुर गम्भीरपुर	बांगरमऊ
		86	कबीरपुर	बांगरमऊ
		87	खम्भौली	बांगरमऊ
		88	गोसाकुतुब	बांगरमऊ
		91	जोगीकोट	बांगरमऊ
		92	रुरी शादिकपुर	बांगरमऊ
		93	आशायस	बांगरमऊ
		94	गढ़ा	बांगरमऊ
		96	झरतौरा	बांगरमऊ
		97	मवई घनश्याम	बांगरमऊ
		98	रसूलपुर रुरी	बांगरमऊ
		102	गोवापट्टी	बांगरमऊ

(5) पुलिस थाना आसीवन से संबंधित क्रम संख्या-15 में अनुसूची के स्तम्भ 3 और 4 की निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	पुलिस थाना का नाम	ग्राम का नाम		तहसील का नाम
1	2	3		4
15	आसीवन	31	सिकन्दरपुर	सफीपुर
		32	नवाबाद ग्रन्ट	सफीपुर
		33	ढोलौवा	सफीपुर
		36	गौरयाकलां	सफीपुर
		41	पिडना	सफीपुर
		43	शेरपुर कला	सफीपुर
		44	शादाबाद	सफीपुर
		49	असरफाबाद	सफीपुर
		100	डालखेड़ा	सफीपुर

(6) पुलिस महिला थाना से संबंधित क्रम संख्या-19 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	पुलिस थाना का नाम	ग्राम का नाम		तहसील का नाम
1	2	3		4
20	बेहटा मुजावर	1	शादीपुर	बांगरमऊ
		2	तमोरिया बुजुर्ग	बांगरमऊ
		3	गुलजारपुर	बांगरमऊ
		4	अरगूपुर	बांगरमऊ
		5	तमोरिया खुर्द	बांगरमऊ

1	2	3		4
		6	दसगवां	बांगरमऊ
		7	हयातनगर	बांगरमऊ
		8	जहांगीराबाद	बांगरमऊ
		9	चहोलिया	बांगरमऊ
		10	ब्यौली इस्लामाबाद	बांगरमऊ
		11	हरईपुर	बांगरमऊ
		12	जटपुर बेल्थरा	बांगरमऊ
		13	भिक्षनपुर गोपालपुर	बांगरमऊ
		14	महोलिया	बांगरमऊ
		15	रोशनाबाद	बांगरमऊ
		16	अटवा	बांगरमऊ
		17	अवैक	बांगरमऊ
		18	मटुकरी	बांगरमऊ
		19	रानीपुर ग्रन्ट	बांगरमऊ
		20	भटौली	बांगरमऊ
		21	खाम्भामऊ	बांगरमऊ
		22	कैथौली	बांगरमऊ
		23	बेहटा मुजावर	बांगरमऊ
		24	अमीरपुर गम्भीरपुर	बांगरमऊ
		25	कबीरपुर	बांगरमऊ
		26	खम्भौली	बांगरमऊ
		27	गोसाकुतुब	बांगरमऊ
		28	जोगीकोट	बांगरमऊ
		29	रूरी शादिकपुर	बांगरमऊ
		30	आशायस	बांगरमऊ
		31	गढ़ा	बांगरमऊ
		32	झरतेरा	बांगरमऊ
		33	मवई घनश्याम	बांगरमऊ
		34	रसूलपुर रूरी	बांगरमऊ
		35	गोवापट्टी	बांगरमऊ
		36	निगोही	सफीपुर
		37	सिकन्दरपुर	सफीपुर
		38	नवाबाद ग्रन्ट	सफीपुर
		39	ढोलौवा	सफीपुर
		40	गौरयाकलां	सफीपुर
		41	पिडना	सफीपुर
		42	शेरपुर कलां	सफीपुर
		43	शादाबाद	सफीपुर
		44	असरफाबाद	सफीपुर
		45	डालखेड़ा	सफीपुर

1	2	3		4
21	दही	1	आवास विकास (एबीसी ब्लॉक)	सदर
		2	शिव नगर	सदर
		3	पिताम्बर नगर भाग-2	सदर
		4	राजेपुर वाजीदपुर	सदर
		5	चाँदपुर	सदर
		6	टिकरगढी	सदर
		7	गजौली	सदर
		8	रामबक्श खेड़ा	सदर
		9	झंझरी	सदर
		10	इब्राहिम बाग	सदर
		11	सिधुपुर	सदर
		12	लोधनहार	सदर
		13	दुआ	सदर
		14	नन्दौली	सदर
		15	तारगांव	सदर
		16	ओराहर	सदर
		17	रायपुर बुजुर्ग	सदर
		18	कुईथर	सदर
		19	अलगनगढ़	सदर
		20	वशीरतगंज	सदर
		21	मैता	सदर
		22	लालपुर	सदर
		23	इछौली	सदर
		24	सोनिक	सदर
		25	रामपुर खालसा	सदर
		26	लालपुर लहिया	सदर
		27	मुर्तजानगर	सदर
		28	अटेसुवा	सदर
		29	गोडवा बिसुनपुर	सदर
22	एण्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट (ए0एच0टी0यू0)	जिला उन्नाव के समस्त ग्राम		समस्त तहसील
23	विद्युत थाना	जिला उन्नाव के समस्त ग्राम		समस्त तहसील

आज्ञा से,  
 अवनीश कुमार अवस्थी,  
 अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/2021/24P/VI-Pu-6-2021-300(75)-2016, dated January 30, 2021:

No. 13/2021/24P/VI-pu-6-2021-300(75)-2016

*Dated Lucknow January 30, 2021*

IN pursuance of the provisions of clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 1515 P/VI-pu-6-2016-300(75)-2016, dated November 30, 2016.

#### AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule,—

(1) In serial no. 1, relating to Police Station Sadar Kotwali, the following entries in Columns 3 and 4 of the Schedule shall be *omitted*, namely:—

Police Station Gazette no.	Name of Police Station	Name of Village		Name of Tehsil
1	2	3		4
1	Sadar Kotwali	25	Sighupur	Sadar
		27	Rajepur Wajidpur	Sadar
		28	Tikargadhi	Sadar
		29	Gajauli	Sadar
		30	Janjari	Sadar
		31	Chandpur	Sadar
		46	Rambaksha Kheda	Sadar
		96	Lodhanhar	Sadar
		97	Awas Vikas (ABC Block)	Sadar
		99	Shiv Nagar	Sadar
		100	Pitambar Nagar Part-2	Sadar
101	Ibrahim Bagh	Sadar		

(2) In serial no. 4, relating to Police Station Achalganj, the following entries in Columns 3 and 4 of the Schedule shall be *omitted*, namely:—

Serial no.	Name of Police Station	Name of Village		Name of Tehsil
1	2	3		4
4	Achalganj	43	Targawn	Sadar
		44	Orahar	Sadar
		45	Dua	Sadar
		46	Raipur Bujurg	Sadar
		47	Nandauli	Sadar

(3) In serial no. 12, relating to Police Station Fatehpur Chaurasi, the following entries in Columns 3 and 4 of the Schedule shall be *omitted*, namely:—

Serial no.	Name of Police Station	Name of Village		Name of Tehsil
1	2	3		4
12	Fatehpur Chaurasi	9	Nigohi	Safipur

(4) In serial no. 13, relating to Police Station Bangarmau, the following entries in Columns 3 and 4 of the Schedule shall be *omitted*, namely :-

Serial no.	Name of Police Station	Name of Village		Name of Tehsil
1	2	3		4
13	Bangarmau	29	Shadipur	Bangarmau
		30	Tmoriya Bujurg	Bangarmau
		31	Guljarpur	Bangarmau
		32	Argupur	Bangarmau
		41	Tmoriya Khurd	Bangarmau
		65	Dasagawan	Bangarmau
		66	Hayat Nagar	Bangarmau
		68	Jahangirabad	Bangarmau
		69	Chaholiya	Bangarmau
		71	Wyoli Islamabad	Bangarmau
		72	Haraipur	Bangarmau
		73	Jatapur Belathara	Bangarmau
		74	Bhikkhanpur Gopalpur	Bangarmau
		75	Maholiya	Bangarmau
		76	Roshanabad	Bangarmau
		77	Atwa	Bangarmau
		78	Abaik	Bangarmau
		79	Matukari	Bangarmau
		80	Ranipur Grant	Bangarmau
		81	Bhatauli	Bangarmau
		82	Khambhamau	Bangarmau
		83	Kaitholi	Bangarmau
		84	Behata Mujawar	Bangarmau
		85	Amirpur Gambhirpur	Bangarmau
		86	Kabirpur	Bangarmau
		87	Khambhauri	Bangarmau
		88	Gosa Kutub	Bangarmau
91	Jogicoat	Bangarmau		
92	Ruri Shadikpur	Bangarmau		
93	Ashayas	Bangarmau		
94	Garha	Bangarmau		
96	Jhartera	Bangarmau		
97	Mavai Ghanshyam	Bangarmau		
98	Rasulpur Ruri	Bangarmau		
102	Gowapatti	Bangarmau		

(5) In serial no. 15, relating to Police Station Aasivan, the following entries in Columns 3 and 4 of the Schedule shall be *omitted*, namely :-

Serial no.	Name of Police Station	Name of Village		Name of Tehsil
1	2	3		4
15	Aasivan	31	Sikandarpur	Safipur
		32	Navabad Grant	Safipur
		33	Dolauwa	Safipur
		36	Gauriya Kala	Safipur
		41	Pidana	Safipur
		43	Sherpur Kala	Safipur
		44	Shadabad	Safipur
		49	Asarafabad	Safipur
		100	Dalkheda	Safipur

(6) After serial no. 19, relating to Police Station Mahila Thana, the following entries shall be *inserted*, namely :-

Serial no.	Name of Police Station	Name of Village		Name of Tehsil
1	2	3		4
20	Behta Muzavar	1	Shadipur	Bangarmau
		2	Tamoriya Bujurg	Bangarmau
		3	Guljarpur	Bangarmau
		4	Argupur	Bangarmau
		5	Tamoriya Khurd	Bangarmau
		6	Dasagawan	Bangarmau
		7	Hayat Nagar	Bangarmau
		8	Jahangirabad	Bangarmau
		9	Chaholiya	Bangarmau
		10	Wyoli Islamabad	Bangarmau
		11	Haraipur	Bangarmau
		12	Jatapur Belathara	Bangarmau
		13	Bhikkhanpur Gopalpur	Bangarmau
		14	Maholiya	Bangarmau
		15	Roshanabad	Bangarmau
		16	Atwa	Bangarmau
		17	Abaik	Bangarmau
		18	Matukari	Bangarmau
		19	Ranipur Grant	Bangarmau
		20	Bhatauli	Bangarmau
		21	Khambhamau	Bangarmau
		22	Kaitholi	Bangarmau
		23	Behta Mujawar	Bangarmau
		24	Amirpur Gambhirpur	Bangarmau



1	2	3		4
		25	Kabirpur	Bangarmau
		26	Khambhauri	Bangarmau
		27	Gosa Kutub	Bangarmau
		28	Jogicoat	Bangarmau
		29	Ruri Shadikpur	Bangarmau
		30	Ashayas	Bangarmau
		31	Garha	Bangarmau
		32	Jhartera	Bangarmau
		33	Mavai Ghanshyam	Bangarmau
		34	Rasulpur Ruri	Bangarmau
		35	Gowapatti	Bangarmau
		36	Nigohi	Safipur
		37	Sikandarpur	Safipur
		38	Navabad Grant	Safipur
		39	Dolauwa	Safipur
		40	Gauriya Kala	Safipur
		41	Pidana	Safipur
		42	Sherpur Kala	Safipur
		43	Shadabad	Safipur
		44	Asarafabad	Safipur
		45	Dalkheda	Safipur
21	Dahi	1	Awas Vikas (ABC Block)	Sadar
		2	Shiv Nagar	Sadar
		3	Pitambar Nagar Part-2	Sadar
		4	Rajepur Wajidpur	Sadar
		5	Chandpur	Sadar
		6	Tikargadhi	Sadar
		7	Gajauli	Sadar
		8	Rambaksha Kheda	Sadar
		9	Janjari	Sadar
		10	Ibrahim Bagh	Sadar
		11	Sighupur	Sadar
		12	Lodhanhar	Sadar
		13	Dua	Sadar
		14	Nandauli	Sadar
		15	Targawn	Sadar
		16	Orahar	Sadar
		17	Raipur Bujurg	Sadar
		18	Kuithar	Sadar
		19	Algangarh	Sadar

1	2	3	4	
		20	Vashiratganj	Sadar
		21	Maita	Sadar
		22	Lalpur	Sadar
		23	Ichhouli	Sadar
		24	Sonik	Sadar
		25	Rampur Khalsa	Sadar
		26	Lalpur Lahia	Sadar
		27	Murtazanagar	Sadar
		28	Atesuwa	Sadar
		29	Godwa Bisunpur	Sadar
22	Anti-Human Trafficking Unit (AHTU)	All Villages of district Unnao		All Tehsil
23	Vidhut Thana	All Villages of district Unnao		All Tehsil

By order,  
 AWANISH KUMAR AWASTHI,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

